



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2513]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2513]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 3030(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 965(अ), तारीख 1 मई, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कटनी-जबलपुर सेक्शन पर 438.222 कि.मी. से जबलपुर बाइपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 451.470 कि.मी. तक (नव सरेखण), पनागर से आगे जबलपुर बाइपास के विस्तार हेतु निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 31 मई, 2012 को “दैनिक भास्कर” और “द हितवाद” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कटनी - जबलपुर सेक्शन पर किमी 438.222 किमी से जबलपुर बाइपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 451.470 किमी तक (नवसंरक्षण), पनागर से आगे जबलपुर बाइपास के विस्तार के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक / तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जबलपुर	पनागर	1. कुसनेर	826/1-2	निजी	असिंचित	0.03	सलीम अहमद पिता सैइयदीन
				827/1-2	निजी	असिंचित	0.01	सलीम अहमद पिता सैइयदीन
			2. रैपुरा	18/1	निजी	सिंचित	0.03	नरेन्द्र कुमार पिता रतन पटेल
				56	निजी	सिंचित	0.02	रामगोपाल पिता प्रताप
				57	निजी	सिंचित	0.05	शकुन्तला बाई पति विजय कुमार
			3. उमरिया	342/1-2-3-4-5-6	निजी	सिंचित	0.52	(1) नत्थूलाल पिता ब्रजलाल (2) हल्के लाल पिता गोरेलाल (3) नर्मदा प्रसाद पिता नत्थूलाल (4) सुजीत पिता नत्थूलाल (5) रामफल पिता नत्थूलाल (6) हल्के पिता गोरेलाल
				375	निजी	सिंचित	0.01	रामकुमार सुभाष कुमार पवन कुमार नाबा. पिता गनेश प्रसाद वगैरह
				380	निजी	सिंचित	0.01	नत्थूलाल पिता ब्रजलाल
				385	निजी	सिंचित	0.03	ईदल पिता मिटठूलाल कुर्मी
			4. तिवासीखेड़ा	83	निजी	सिंचित	0.06	गेंदालाल महेश हीरालाल ज्ञानी पिता हरीलाल वगैरह
				88	निजी	सिंचित	0.01	लक्ष्म राम पिता रामदयाल कुर्मी
			5. पनागर	23	निजी	सिंचित	0.05	अनुजकुमार पिता महेन्द्र कुमार
				25	निजी	सिंचित	0.11	अमित कुमार पिता महेन्द्र कुमार
			6. देवरीकलां	28	निजी	असिंचित	0.12	तोषित पिता योगेश मोहन दुबे
				29	निजी	असिंचित	0.10	तोषित पिता योगेश मोहन दुबे
				34	निजी	असिंचित	0.07	तोषित पिता योगेश मोहन दुबे
				60	निजी	असिंचित	0.04	उत्तम प्रसाद पिता फूलचंद्र पटेल
			7. बिजोरा	31	सरकारी	नाला	0.14	म.प्र. शासन
				66	निजी	असिंचित	0.06	मोहनलाल पिता राममनोहर
				77/3	सरकारी	स्कूल	0.02	म.प्र. शासन
				76/2	सरकारी	नहर	0.02	म.प्र. शासन
				77/2	सरकारी	स्कूल	0.01	म.प्र. शासन
			8. उरदुवा खुर्द	11	निजी	सिंचित	0.07	पुरुषोत्तम पिता राजाराम

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				31	निजी	सिंचित	0.04	दशोदा बाई पति विद्याशंकर राजकुमार अशोक विजय वीरेन्द्र दिनेश उषाबाई पिता विद्याशंकर
			9. बघेली	67	निजी	सिंचित	0.07	मो. शाबिर पिता शाह मोहम्मद

[फा. सं. भारराप्रा/पीआईयू/जबलपुर/3डी/रिंग रोड/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2012

**S.O. 3030(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways S.O. number 965 (E) dated 1<sup>st</sup> May 2012, in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub – section (ii) issued under sub – section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning, etc), maintenance, management and operation for extension of Jabalpur bypass beyond Panagar from Km 438.222 of NH-7 on Katni-Jabalpur section to Km 451.470 of NH-7 on Jabalpur bypass (new alignment) in Jabalpur district in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “The Hitvada” both dated 31<sup>st</sup> May 2012; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for extension of Jabalpur Bypass beyond Panagar joining Km 438+222 of NH-7 on Katni- Jabalpur section to Km 451+470 of NH-7 on Jabalpur bypass (new alignment) in District Jabalpur in the State of Madhya Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluka/ tehsil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner/ interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jabalpur	Panagar	1. Kusner	826/1-2	Private	Unirrigated	0.03	Salim Ahamad S/o Saiyadeen
				827/1-2	Private	Unirrigated	0.01	Salim Ahamad S/o Saiyadeen
			2. Racepura	18/1	Private	Irrigated	0.03	Narendra Kumar s/o Ratan Patel
				56	Private	Irrigated	0.02	Ramgopal s/o Pratap
				57	Private	Irrigated	0.05	Shakuntala bai w/o Vijay Kumar
			3. Umariya	342/1-2-3-4-5-6	Private	Irrigated	0.52	(1) Natthulal s/o Brijlal (2) Halke lal s/o Gorelal (3) Narmada Prasad s/o Natthulal (4) Sujit s/o Natthulal (5) Ramphal s/o Natthulal (6) Halke s/o Gorelal
				375	Private	Irrigated	0.01	Ramkumar Subhash Kumar Pawan Kumar minor s/o Ganesh Prasad others
				380	Private	Irrigated	0.01	Natthulal s/o Brijlal
				385	Private	Irrigated	0.03	Indal s/o Mitthulal Kurmi
			4. Tiwarikhera	83	Private	Irrigated	0.06	Gendlal Mahesh Hiralal Ghyani s/o Harilal others
				88	Private	Irrigated	0.01	Lakkhu Ram s/o Ramdayal Kurmi
			5. Panagar	23	Private	Irrigated	0.05	Anuj Kumar s/o Mahendra Kumar
				25	Private	Irrigated	0.11	Amit Kumar s/o Mahendra Kumar
			6. Deorikala	28	Private	Unirrigated	0.12	Toshit s/o Yogesh Mohan Dubey
				29	Private	Unirrigated	0.10	Toshit s/o Yogesh Mohan Dubey
				34	Private	Unirrigated	0.07	Toshit s/o Yogesh Mohan Dubey
				60	Private	Unirrigated	0.04	Uttam Prasad s/o Phoolchand Patel
				31	Govt	Nall	0.14	M.P. Govt
			7. Bijori	66*	Private	Unirrigated	0.06	Mohan Lal s/o Rammanohar
				77/3	Govt	School	0.02	M.P. Govt
				76/2	Govt	Canal	0.02	M.P. Govt
				77/2	Govt	School	0.01	M.P. Govt
			8. Urduwa Khurd	11	Private	Irrigated	0.07	Purushottam s/o Rajaram
				31	Private	Irrigated	0.04	Dasoda bai w/o Vidhyashankar Rajkumar Ashok Vijay Virendra Dinesh Ushabal so Vidhya Shankar
			9. Bagheli	67	Private	Irrigated	0.07	Moh Shabir s/o Shah Mohammad

[F. No. NHAI/PIU/JBP/3D/Ring Road/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.